## ATLAS JEWELLERY INDIA LIMITED



Reg. Off: DTJ-719 7<sup>th</sup> Floor, DLF Tower "B", Plot No.11, Jasola District, New Delhi-110025 E-mail: <u>info@atlasjewelleryindia.com</u>, Phone: 011-40541077/41041149, Telefax: 011-40541077 Web: <u>www.atlasjewelleryindia.com</u>\_CIN: L74140DL1989PLC131289

#### Date: August 24, 2020

To, BSE Limited

Corporate Relation Department Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001

Subject: Public Notice pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 under SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR).

Scrip Code: 514394

Dear Sir,

This is to inform you that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 under SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (LODR), public notice has been published in English daily and regional newspaper regarding the meeting of Board of Directors of the Company to be held on Saturday, August 29, 2019. Please find enclosed the newspaper cuttings of the same.

Please take the information in your records.

Thanking You

Yours Faithfully

#### For ATLAS Jewellery India Limited

Acrelan Mikyathe

(Chandan Mahapatra) Company Secretary & CFO

**Encl:** As Above

# nday pioneer NEW DELHI | SUNDAY | AUGUST 23, 2020

# **₹8,594 cr proposals** of stressed NBFCs, **HFCs sanctioned**

#### PTI NEW DELH

The Finance Ministry on T Saturday said 24 proposals worth Rs 8,594 crore of stressed NBFCs and HFCs have been sanctioned under the special liquidity scheme announced as part of the Rs 20.97 lakh crore Aatmanirbhar Bharať package.

The scheme, which was launched on July 1, permits both primary and secondary market purchases of debt and seeks to address the shortterm liquidity issues of nonbanking financial companies (NBFCs) and housing finance companies (HFCs).

Sharing implementation status update of the Rs 30,000 crore Special Liquidity Scheme (SLS), Finance Minister Nirmala Sitharaman in a tweet said that 24 proposals with a total sanctioned amount of Rs 8,594 crore have been cleared as on August 21, while 17 more applications seeking financing of up to Rs 3,684.5 crore are under process.

"The amount disbursed stood at Rs 3,279 crore as on 21.08.2020. Compared to 07.08.2020, there is an increase of Rs 2,195 crore in the amount sanctioned & an increase of Rs 2,279 crore in the amount disbursed," she tweeted.

NBFCs and HFCs came under stress following a series of defaults by IL&FS group firms in September 2018.

NBFCs including microfinance institutions registered under the RBI Act, 1934 (excluding those registered as

The BBI has provided funds for the scheme by subscribing to government-guaranteed special securities issued by a trust set up by SBI Capital Markets Ltd

(SBICAP) The scheme is being implemented by SLS Trust, the SPV set up by SBICAP. The special liquidity scheme is open for three months for making

subscriptions by the Trust

MARKET Core Investment Companies) WATCH and any HFC registered with the National Housing Bank under the National Housing Bank Act, 1987, which is complying with certain specified conditions, are eligible to raise

funding from this facility. The Reserve Bank of India (RBI) has provided funds for the scheme by subscribing to government-guaranteed special securities issued by a trust set up by SBI Capital Markets Ltd (SBÍCAP).

The scheme is being imple-mented by SLS Trust, the SPV set up by SBICAP. The special liquidity scheme is open for three months for making subscriptions by the Trust.

Under the scheme, the government will provide an unconditional and irrevocable guarantee to the special securities issued by the Trust.

The instruments will be commercial papers and nonconvertible debentures with a residual maturity of not more than three months and rated as investment grade.

Mumbai: Optimism over the GDP numbers are expected to development of Covid-19 vacshow contraction between 15cine along with broad-based 20 per cent and any positive growth trends is expected to surprise could help the market sentiments." According to induce volatility in the rupee's Anindya Banerjee, DVP, value during the short term. The US Fed's FOMC min-Currency and Rates, Kotak Securities: "Dollar is going to be range-bound due to lack of utes, US-China trade talks, and expectations on Q1 GDP

**BSE** Sensex

triggers." "The RBI intervention rate will be the other key facrate will be the other key fac-tors steering the rupee. Last week, the rupee strengthened to Rs 74.85 against a greenback. "Expect next week range at Rs 74.60 to Rs 75.10 with some appreciation bias," said Sajal Gupta, Head, Forex and Rates, Edelwije Sacuritien "EV21 OL below Rs 74.80 and exporter selling above Rs 75.30 may keep it between Rs 74.50 and Rs 75.50 per dollar for the medium term."

The Reserve Bank of India is known to enter the markets Edelweiss Securities. "FY21 Q1

38,434.72

to make rupee volatile: Experts via intermediaries to either sell or buy US dollars to keep the rupee in a stable orbit.

This week the movement in USD/INR spot has mainly been dollar driven and the spot traded in a very tight range. Going ahead, insights into how the US economy is recovering from the coronavirus pandem-ic, optimism over vaccine, along

with uncertainty regarding the US-China trade talks will keep playing out on the USD/INR pair," said Rahul Gupta, Head of Research-Currency, Emkay Global Financial IANS Services.

1.371.60

S&P CNX Nifty

## Global cues, Q1 GDP expectations | ICICI Lombard to acquire Bharti AXA General Insurance business

Chennai: In a share swap deal, non-life insurer ICICI Lombard General Insurance Company will acquire the business of Bharti AXA General Insurance Company Ltd.

In a regulatory filing late Friday, ICICI Lombard said the boards of the two companies -ICICI Lombard and Bharti AXA General — had met on Friday and approved entering into definitive agreements for demerger of Bharti AXA's nonlife insurance business into ICICI Lombard through a

Scheme of Arrangement. According to ICICI Lombard, the shareholders of Bharti AXA General will receive two shares of ICICI Lombard for every 115 shares of Bharti AXA General held by them as on the date on which the Scheme of Arrangement is approved by the Board of Directors of the two companies. The share exchange ratio was recommended by independent valuers and accepted by the boards of the two companies, ICICI Lombard said.

Under the terms of the agreement, AXA and Bharti will receive a total of 35.8 million shares of ICICI Lombard on closing, which would represent 521 million euros, at current market value — the clos-ing price of ICICI Lombard shares on August 21, AXA said in a statement. According to ICICI Lombard, the proposed transaction would enable it to consolidate its market and become the third largest non-life insurer in the country with a market share of about 8.7 per cent. IANS on Friday.

## **New green** subsidiary proposed by NTPC

IANS NEW DELHI

State-run power generation Company NTPC proposes to set up a wholly-owned subsidiary to house its growing renewable energy portfolio so that more focus is brought into the business that holds the potential of being the next growth engine for the company.

The company, which had installed a generation capacity of close to 63,000 ME, proposes to have 32,000 ME of renewable energy capacity under its hold by 2032. It already has 5,000 MW of commissioned renewable energy projects in its fold under the developer-mode model.

The NTPC has secured a bid from NITI Aayog and Disinvestment department DIPAM for its new renewable energy subsidiary and proposes to carve out the new entity soon after taking the board's approval and shareholders' nod. The capital structure of the new subsidiary will be worked out later.

"...concurrence had been obtained from NITI Aayog, Government of India (GoI) and Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), Ministry of Finance (MoF), Government of India for formation of a whollyowned subsidiary for NTPC renewable energy business. The aforesaid wholly-owned subsidiary will be incorporated under the provisions of the Companies Act, 2013," NTPC informed the exchanges

business CEO **Jeff Wilke to** retire next year IANS SAN FRANCISCO

eff Wilke, the CEO of Amazon's worldwide consumer division, is set to retire early next year after serving the company for over two decades.

Amazon consumer

Dave Clark, Amazon's Senior Vice President of Retail Operations, will succeed Wilke, Amazon said in a statement on Friday.

In a memo to employees, Amazon Founder and CEO Jeff Bezos called Wilke his "tutor".

Wilke, who joined the company in 1999, is often credited with shaping the logistics system that the e-commerce giant has today.

"When you see us taking care of customers, you can thank Jeff for it," Bezos said in the memo, announcing Wilke's departure from the company.

Jeff's legacy and impact will live on long after he departs. He is simply one of those people without whom Amazon would be completely unrecognisable," the Amazon CEO said.

In a message to Amazon teams around the world, Wilke said that "it's just time" for him "to take time to explore personal interests that have taken a back seat for over two decades."

"I'm planning to retire in Q1 of next year. I don't have a new job, and am as happy with and proud of Amazon as ever," Wilke said.

Several top Amazon executives have recently announced their plans to leave the company including Vice President of Robotics Brad Porter, The Verge reported.

14.Khoda Ganesh Phase

IV Housing Scheme Kishangarh (Ajmer)

Four Chief Minister public

housing schemes inaugurated


1. Chief Minister Jan Awaas Yojana, Sector-3, Pratap

2. Chief Minister Jan Awaas Yojana, Sector-28,

Pratap Nagar, Jaipur 3. Chief Minister Jan

Awaas Yojana, Sector-7 (GH.3),

Indira Gandhi Nagar, Jaipur



#### Punjab National Bank posts net | Inauguration, foundation stone of 25 projects of Rajasthan Housing Board profit of ₹308 crore in Q1 FY21 Jaipur: Chief Minister Shri Scheme, Aburod City, District

New Delhi: Punjab National Bank, India's second-largest public sector bank today announced its financial result for the Quarter ended 30th June 2020. The bank recorded a Net profit of Rs 308 crore. Global Business of the bank reached Rs 17,96,612Crore. The amalgamation process ison course with the rollout of verticalised organisational structure, completion of harmonisation of process, augmented capacity, capability, and outreach.

Operating profit grew by 2.5% on a YOY basis to Rs. 5,280 Crore in Q1 FY'21.CRAR to 12.63%. Gross NPA ratio is verticalised organisation struc- Business.

against 15.49% in June 19.

5.51% as on March 20 and Coverage crossed 233 lakh.

Crore.POS installed increased YOY by 17.78% to 88,204. Bharat/BHIM QR Code installed increased YOY by 139% to 1,73,958.

at 14.11% as on June 20 as Net NPA ratio reduced to

5.39% as on June 20 down from 6.97% as on June 19. Provision Ratio (PCR) improved to 80.75% as on June 20 from 70.37% as on June 19.Internet Banking users

been re-organised, and the number of Zonal Offices & UPI transactions increased Circle Offices have been increased to 24 and 161, respectively.57 Customer 76% YOY to 19.16 Acquisition Centers for focusing on liability business from Corporates, Institutions, HNIs, NRIs, including Wealth ank has rolled out a

Ashok Gehlot said every person dreams of having his own house. The Rajasthan efficiency and provide steady Government is committed to growth momentum. Business realise this dream of the peoand control functions have ple. He said Rajasthan Housing been segregated to have a Board should work with misfocused approach for business sion spirit in this direction, focusing on quality, timeliness tomer service.Departmental Verticals at Head Office have and expansion.

Gehlot was addressing the foundation stone and inaugu-ration ceremony of 25 projects of Rajasthan Housing Board through video conference at the Chief Minister's residence on Saturday. He inaugurated 14 housing schemes and 4 Chief Minister Jan Awas Yojana and laid the foundation stone for 7 cts as well as his booklets. He also launched Rana Sanga Market, Pratap Nagar, Jaipur. On this occasion, the Chief Minister launched the mobile app 'RHB Sajag' for quality control and released the booklet. Residential plans should be developed according to the expectations and expectations of the public. The Chief Minister said that providing quality housing to the economically weaker and minority sections of the society is also a part of good governance. Housing board has a big role in this. He said that with the hope and expectations of the people, the Housing Board should do master planning for housing schemes across the state, so that the purpose with which the Housing Board was set up 50 years ago can be realised. The board got new life due to the will of the government. Gehlot said the Rajasthan



Housing Board was seen as a white elephant in the previous government and had come to close it, but the will of the current state government and the dedication of the officers and employees of the Housing Board to work The result of this is that the board has got new life. In the future, the Board should work with this spirit to strengthen its goodwill. Expressing happiness at the inauguration of new projects, he said that this will not only give people a terrace, but will also provide facilities like parks, coaching hubs, open gyms, open theater, food courts, walk-way. Urban Development and Housing Minister Shanti Dhariwal said that it is the result of the public-friendly thinking of the Chief Minister that today the project of big gardens like City Park in Jaipur is taking concrete shape. At the same time, the dream of owning houses for the economically weaker sections is coming true. He said that the Housing Board, which is on the verge of closure, is running fast today due to the efforts of the State

Housing Board has earned revenue of about 1400 crores by selling various residential and commercial properties, which is a big achievement. He said that along with revenue acquisition, the board has tried to give them a concrete form by taking many useful decisions. On this occasion, the Chie

(Ajmer) 4. Niwai Residential Scheme, Niwai (Tonk) 5. Chief Minister State

Employees Housing Scheme, Pratap Nagar, Jaipur Weekend Home

Yojana, Sector-7 (GH4), Indira Registration Scheme-2020, Gandhi Nagar, Jaipur Nayala, Jaipur

5. Kota Chowpatty, Kota

6.Community Center,

7. Community Centre,

Sector-3 Pratap Nagar, Jaipur

4. Chief Minister Jan Awaas

anagement and

ture to improve operational

development and improve cus-

#### DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION LIMITED National Office: HDIL Towers, B-wing, 6th Floor, Anant Kanekar Marg, Station Road, Ban Mumbai - 400051, Regional Office: Plot No-6, Block A, Sector-2, Noida, U.P-201301,

#### APPENDIX IV POSSESSION NOTICE (for immovable property

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL) under the Securitisation an construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read will Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) erein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borro having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has take possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act rear with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, is respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of DHFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon

Name of the Borrower(s)/	Description of Secured Asset	Demand Notice	Date of	
Guarantor(s)/ Loan Code	(Immovable Property)	Date and Amount	Possession	
(Loan Code No-00001244), (Delhi), Amit	All the Part & Parcel of Property -Flat No: 1208-A	21-01-2020 for Rs. 3561557/-(Thirty	17-Aug-20	
Kumar (BORROWER NAME), Juhi Tiwari,	12th Floor Tower- Cs-6 Plot No: Gh-01/A Supertech	Five Lac Sixty One Thousand Five		
(COBORROWER_NAME1)	Capetown Sec-74, Noida, Gautambudh Nagar-201301	Hundred Fifty Seven Rupees)		
(Loan Code No-00001227), (Delhi), Sukhvinder Singh (BORROWER NAME), Harpreet Kaur, (COBORROWER_NAME1)	All the Part & Parcel of Property -Plot No. C-1/21- C, Third Floor, Front Portion, With Roof Rights, Khasra No. 104/11, Rajapuri, Vill Palam, Uttam Nagar, New Delhi-110046.	21-01-2020 for Rs. 1570875/-(Fifteen Lac Seventy Thousand Eight Hundred Seventy Five Rupees)	17-Aug-20	
Loan Code No-00000678), (Delhi),	All the Part & Parcel of Property -Flat No. Mf-02,	21-01-2020 for Rs. 2569585/-(Twenty	18-Aug-20	
Amandeep Singh (BORROWER NAME),	First Floor Rear Lhs Mig, Plot No. 7/11 Rajendra	Five Lac Sixty Nine Thousand Five		
Shilpi Sisodia, (COBORROWER_NAME1)	Nagar, Sector-02, Ghaziabad-201014	Hundred Eighty Five Rupees)		
Loan Code No-00043693), (Delhi), Neeraj	All the Part & Parcel of Property -Upper Ground	21-01-2020 for Rs. 1809321/-	17-Aug-20	
Kumar (BORROWER NAME), Suman	Floor Front rhs Portion Plot No. D- 406	(Eighteen Lac Nine Thousand Three		
COBORROWER_NAME1)	Indraprastha Colony, Ghaziabad-201010	Hundred Twenty One Rupees)		
(Loan Code No-00000462), (Delhi), Atul	All the Part & Parcel of Property -Flat No. B, 3rd Floor	21-01-2020 for Rs. 2281257/-(Twenty	19-Aug-20	
Bajpai (BORROWER NAME), Amit Bajpai,	Rear Side Middle Portion, khasra No. 364, Extended	Two Lac Eighty One Thousand Two		
(COBORROWER_NAME1)	Abadi Of Lal Dora, Brijwasan, New Delhi-110075	Hundred Fifty Seven Rupees)		
Loan Code No-00002732), (Agra), Ram	All the Part & Parcel of Property -H.no Mig A 81(	21-01-2020 for Rs. 1136707/-	19-Aug-20	
Kishan Baghel (BORROWER NAME),	Part), Shastripuram Shastripuram Yozna	(Eleven Lac Thirty Six Thousand		
Virendra, (COBORROWER_NAME1)	Lohamandi Ward, Agra-282001	Seven Hundred Seven Rupees)		
(Loan Code No-00002917), (Agra), Lalmuni	All the Part & Parcel of Property -Unit No. G-1 On	21-01-2020 for Rs. 1201862/-	19-Aug-20	
Bansal (BORROWER NAME), Mohini,	Ground Floor Block No. B-3 amarpali Kanha	(Twelve Lac One Thousand Eight		
(COBORROWER_NAME1)	Chaumuhan, Vrindavan Mathura. Uttar Pradesh 281004	Hundred Sixty Two Rupees)		
Loan Code No-00000965), (Delhi), Shalu Jain (BORROWER NAME),Vijay Rana,(COBORROWER_NAME1)	All the Part & Parcel of Property -Flat No. G-7, Ugf, Front Lhsplot No. 33, Middilekhasra No. 80min, krishna Vatika Sudamapuri Colony Dundhera Khata No. 01178, Ghaziabad Utar Pradesh 201009	21-01-2020 for Rs. 1582238/- (Fifteen Lac Eighty Two Thousand Two Hundred Thirty Eight Rupees)	18-Aug-20	
(Loan Code No-00001810), (Delhi), Ankit	All the Part & Parcel of Property -Second Floor Flat	21-01-2020 for Rs. 1699310/-	18-Aug-20	
Agarwal (BORROWER NAME),Asha	No.a-1 On Plot No. 32 New Friends Colony, Village	(Sixteen Lac Ninety Nine Thousand		
Agarwal,(COBORROWER_NAME1)	Peelna Sofipur Pargana, Meerut Uttar Pradesh 250001	Three Hundred Ten Rupees)		
(Loan Code No-00000379), (Delhi),	All the Part & Parcel of Property -Property No.83,	21-01-2020 for Rs. 2468648/-(Twenty	17-Aug-20	
Prahlad Singh Bisht (BORROWER NAME),	Block- A, Shalimar Garden Main, Ghaziabad-	Four Lac Sixty Eight Thousand Six		
Geeta Bisht, (COBORROWER_NAME1)	201001	Hundred Forty Eight Rupees)		
(Loan Code No-00002822), (Gurgaon),	All the Part & Parcel of Property -House No 4502	26-07-2019 for Rs. 4033883/-(Forty	17-Aug-20	
Aman Bhardwaj (BORROWER NAME),	Khasra No.6116/14 Rajender Park Gurgaon,	Lac Thirty Three Thousand Eight		
Pinki Sharma, (COBORROWER_NAME1)	Haryana - 122001	Hundred Eighty Three Rupees)		
(Loan Code No-DEL37798),(Delhi - Safdurjung), Pushpa Rani (BORROWER NAME), (COBORROWER_NAME1)	All the Part & Parcel of Property -H/FLAT No.House No. 10 Ward No. 19 Awas Vikas Rudrapur, Floor No. Teh- Kichha Dist Udham Singh Naga R , Near Jivandeep Hospital, Village. Uttrakhakhand Udham Singh Nagar Uttaranchal - 263153	28-08-2019 for Rs. 24270621/-(Two Crore Forty Two Lac Seventy Thousand Six Hundred Twenty One Rupees)	19-Aug-20	
(Loan Code No-00000567), (Bhiwadi), Gurmeet Singh (BORROWER NAME), Charanjeet Kaur, (COBORROWER_NAME1)	All the Part & Parcel of Property -P.no.33-a, T.f With Roof Back Side, Kh.no.123, gali.no.09, block-o Extn, Vill. bindapur, Vani Vihar, Uttam Nagar, New Delhi - 110059	26-09-2019 for Rs. 2268472/- (Twenty Two Lac Sixty Eight Thousand Four Hundred Seventy Two Rupees)	17-Aug-20	
	All the Part & Parcel of Property -Flat No A 805, Eight Floor, Aparna Prem, Shashtri Puram, Agra Uttar Pradesh 282007	29-10-2019 for Rs. 2159124/-(Twenty One Lac Fifty Nine Thousand One Hundred Twenty Four Rupees)	19-Aug-20	
Loan Code No-00000050), (Rohtak),	All the Part & Parcel of Property -Plot No 9 Killa	19-12-2019 for Rs. 1440651/-	17-Aug-20	
AnilKumar (BORROWER NAME), Rinku	No 33/4 5 Mouja Sainik Colony With In Mc Limit,	(Fourteen Lac Forty Thousand Six		
Devi, (COBORROWER_NAME1)	Rohtak Haryana - 124001	Hundred Fifty One Rupees)		
Loan Code No-00000976), (Rohini), Shiv Shakti Traders (BORROWER NAME), Rupesh Aggarwal,	All the Part & Parcel of Property -Flat No.104, 1st Floor, Dattani Shelter Opp, Oshiwara Bus Depot, Off, Link Road Oshiwara, Goregaon West, Mumbai Suburban Maharashtra 400067	27-12-2019 for Rs. 3525723/-(Thirty Five Lac Twenty Five Thousand Seven Hundred Twenty Three Rupees)	18-Aug-20	

Government.

Minister added a Kalpavriksha to be planted in the City Park, Mansarovar on his own behalf, handed over to the Commissioner and started the plantation program. Also, Urban Development and Housing Minister Shanti Dhariwal and Pawan Arora were entrusted to plant the Rudraksha plant in the city park. Around 21 thousand saplings will be planted in the city park.

Chief Secretary Rajiv Swaroop, Additional Chief Secretary Finance Niranjan Arva, Information and Public Relations Commissioner Mahendra Soni and other senior officers were present on the occasion.

These 14 housing schemes inaugurated

1. Vatika Residential Scheme, Sanganer, Jaipur

2. Mahla Residential Scheme, Ajmer Road, Jaipur 3. Mahatma Jyotirao Phule Residential Scheme, Nasirabad

UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR DIRECTORATE OF AGRICULTURE KASHMIR INDIA INTERNATIONAL KASHMIR SAFFRON TRADING CENTRE (IIKSTC), PAMPORE

Subject: E-Auctioning of "Kashmir Saffron" ----Registration of Sellers (Growers) and Buyers.

India International Kashmir Saffron Trading Centre (IIKSTC) contemplates to promote trading of GI Tagged "Kashmir Saffron" through PAN India E-Auction portal created in collaboration with NSE-IT, with a sole aim to assure Buyers to have access to quality "Kashmir Saffron".

In this backdrop, it is an opportunity for Saffron Growers of Kashmir and Buyers across Indian to register themselves as SELLERS and BUYERS for E- Trading on the E- Auction portal www.saffroneauctionindia.com, so that hassle free E-Trading between registered Growers and registered Buvers is ensured.

For prompt registration as BUYER or SELLER drop in a mail at

- I. eauction.iikstc@jk.gov.in
- II. eauctioniikstc@gmail.com

Feel free to contact on Below Phone Number:-

- 1. 7006401591
- 2. 7006687593
- 3. 9796172228
- No.DIPK-NB-1943/20 Dated :- 22-08-2020

Scheme, Bhilwara Scheme, Bhilwara

Part-2 Residential Scheme, Bhilwara

1. Coaching Hub, Pratap 8. Shahpura Residential Nagar, Jaipur

7 schemes

Nagar, Jaipur

2. City Park, Mansarovar, 9. Shastri Nagar Residential Jaipur Mahatma Gandhi

10. Atal Nagar Housing Sambal Residential Scheme, Scheme, Bhinder, Udaipur Badli, Jodhpur 4. Jodhpur Chowpatty,

Sirohi

 $\mathbf{IV}$ 

11. Dwarkapuri Yojna, Savina II and South Extension Jodhpur Residential Plan - Udaipur

12. Mahatma Gandhi Sambal Residential Scheme, Badli, Jodhpur

13. Manpur Housing Sector-26 Pratap Nagar, Jaipur



NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 under SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (LODR), a meeting of the Board of Directors of the Company will be held. On Saturday 29<sup>th</sup> August, 2020 to inter alia consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the first quarter ended on 30<sup>th</sup> June 2020 along with Limited Review Report of the statutory auditors for the corresponding period.

A copy of said Notice and Un-Audited Financial Results shall also be available on the company's website at www.atlasjewelleryindia.com and may also be available on the website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com.

Pursuant to the Company's - Code of conduct for prevention of Insider Trading, the trading window for dealing in the securities of the Company shall remain closed for the directors and other employees covered under the Code from Saturday, August 22, 2020 and end 48 hours after the results are made public

By the Order of the Board FOR ATLAS JEWELLERY INDIA LIMITED

Sd Chandan Mah (Company Secretary & CFO)

### SEARCH FOR MISSING/KIDNAPPED



Date : 22.08.2020

Place : New Delh

General Public is hereby informed that one boy namely Rahul S/o Mohar Singh, R/o H. No.- RZC-292, Nihal Vihar, Nangloi, Delhi. Age - 21 Years, Height 5'5", Face Long, Complexion- Fair, Wearing: White Shirt-Blue Jeans Pant & shoes in Feet has been missing/kidnapped from the area since 03.07.2020. In this regard a vide DD No. 68-A dated

#### 04.07.2020 at PS Nihal Vihar, Delhi

Sincere efforts have been made by local police to trace out the boy but no clue has come to light so far, If any one having any information about this boy please inform undersigned.

Web-site http://cbi.nic.in E-mail : cic@cbi.gov.in Ph.: 011-24368638, 24368641 Fax.: 011-24368639 DP/298/OD/2020

SHO P.S. Nihal Vihar, Delhi Ph. 011-25946700 25946710



Sd/- Altaf Aijaz Andrabi

**Director Agriculture Kashmir** 

Giving the presentation, Commissioner of Housing Board Pawan Arora said that in last ten months, Rajasthan



# राष्ट्रीय 🚺

#### उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर रेल लाइन निर्माण की समीक्षा की तेलंगाना में इस बार दिल्ली दंगों पर किताब का प्रकाशन नहीं: ब्लूम्सबरी इंडिया 2022 तक काम पूरा होने की उम्मीद' गणेश चतुर्थी का पर्व भाषा। नई दिल्ली हिंसा भड़कने के पहले ऐसे आरोप लगाए गए थे कि मिश्रा सामान्य तरीके से समेत कई नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए। **ब्लूम्सबरी** इंडिया ने फरव<mark>री के दिल्ली</mark> मनाया गया एटलस ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड दंगों से जुडी एक किताब का प्रकाशन 🛑 २७,९४९ करोड़ की है और इस साल जुलाई में इस संबंध ATLAS भाषा। जम्मू सीआईएन : L74140DL1989PLC131289 पंजी. कार्यालय : डीटीजे–719, 7वां तल, डीएलएफ टावर–बी, प्लॉट सं. 11, नहीं करने की शनिवार को घोषणा की। में रिपोर्ट सौंपी गई है। प्रवक्ता ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज लागत से 161 किमी बताया कि सिन्हा ने रेलवे को दोनों <u>भाषा । हैदराबाद</u> प्रकाशन संस्था ने यह घोषणा उनकी जासोला जिला, नई दिल्ली–110025 फोन : 011–40541077/41041149, टेलीफैक्स : 011–40541077 सिन्हा ने शनिवार को बहुप्रतिक्षित परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट जानकारी के बिना किताब के बारे में लंबी रेलवे लाइन बनाने ई-मेल : info@atlasjewelleryindia.com, वेब : www.atla 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर-(डीपीआर) तैयार करने को कहा एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 महामारी के कारण सूचना तदद्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 (एलओडीआर) के विनियम 29 र की प्रक्रिया शुरू श्रीनगर-बारामूला रेल लाइन निर्माण ताकि मंजूरी के लिए मामले पर वित्त किए जाने के बाद की। इस प्रकाशन राज्य सरकार द्वारा दी गई सलाह के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की पुनरसंयोजित में हुई प्रगति की समीक्षा की जिसके मंत्रालय से चर्चा की जा सके। प्रवक्ता संस्था को शुक्रवार को उस समय अनुरूप इस साल तेलंगाना में बैठक अब शनिवार, 29 अगस्त, 2020 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ 30 जून, 2020 के ने प्रत्य के तो तो, से 20 जा तो, 2020 के जा जानां जो जा तो तो तो तो तो जा जा के जान के खुद है. 2020 के समापत पहली तिमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामां त्या सांगत अवधि हेतु सांविधिव लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा । 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने की निर्देश दिया कि वे कटरा-बनिहाल व्यापक प्रतिक्रिया का सामना सामना के मुताबिक उपराज्यपाल ने कोविड-धूमधाम के बिना, सामान्य तरीके से मार्ग के बचे हुए काम को 15 अगस्त रेलवे अधिकारियों को राजौरी-पुंछ 19 की महामारी के बाद कश्मीर में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया गया। उम्मीद है। करना पडा था जब शनिवार को किताब उक्त सूचना तथा अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की प्रति कम्पनी की वेबसाइट www.atlasj पर भी उपलब्ध होगी तथा स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हो सकती है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने 2022 तक पूरा करें। उन्होंने परियोजना और कुपवाड़ा के इलाकों के उन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लोगों ने अपने घरों में पूजा की। वर्षों के लोकार्पण का एक कथित विज्ञापन इसके अनुसरण में, कम्पनी ने निर्णय किया है कि "अंतरंगी व्यापार की रोकथाम आचार संहिता" के तहत बंदी सामने आया था और इस कार्यक्रम के को समय से पूरा करने में निर्माण इलाकों में रेल नेटवर्क को जोड़ने का से लोग समूहों में एकत्र होकर पूजा बताया कि रेलवे की परियोजना के विस्टाडोम कोच चलाने को कहा की अवधि अर्थात ट्रेडिंग विन्डो बंद रहने की अवधि शनिवार, 22 अगस्त, 2020 से आरंभ होगी तथा परिणाम करते आ रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा की सार्वजनिक घोषणा के 48 घंटे बाद समाप्त होगी। लिए सिन्हा द्वारा बुलाई गई समीक्षा एजेंसियों को पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया जो अबतक इससे नहीं ताकि पर्यटक घाटी की खूबसूरती को मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता बोर्ड के आदेशानुसार कृते एटलस ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड नहीं हो सका। कोरोना के चलते जुड़े हैं। इसपर रेलवे अधिकारियों ने बैठक में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद भरोसा दिया। प्रवक्ता ने बताया कि बेहतर तरीके से देख सकें। कपिल मिश्रा को दिखाया गया था। हस्ता./ लोगों ने अपने घरों में ही पूजा की। कुमार यादव, उपराज्यपाल के रेलवे अधिकारियों ने निर्धारित समय बताया कि 22,768 करोड़ की सिन्हा के हस्तक्षेप पर रेलवे ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी को तिथि : 22.08.2020 स्थान : नई दिल्ली चन्दन महापाः ज्म्पनी सेक्रेटरी एवं सीएफओ राज्य सरकार के मंत्री ए इद्रकरन सलाहकार के के शर्मा, मुख्य सचिव सीमा में परियोजना को पुरा करने का अनुमानित लागत से 223 किलोमीटर कोविड-19 महामारी कम होने की बीवीआर सुब्रमण्यम और उत्तर रेलवे भरोसा दिया। उल्लेखनीय है कि इस जम्मू-पुंछ रेलमार्ग के लिए प्राथमिक सूरत में कठुआ-उधमपुर मार्ग पर रेड्डी ने लोगों से इस महीने चतुर्थी दीवान हाउसिंग फाइनैंस कारपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक राजीव चौधरी शामिल परियोजना के तहत 359 मीटर ऊंचा सर्वेक्षण का काम पूरा कर वर्ष 2017 सवारी गाड़ी चलाने पर सहमति उत्सव और मुहर्म कोविड–19 राष्ट्रीय कार्यालय :एचडीआईएल टावर्स, छठा तल, अनंत कानेकर मार्ग, स्टेशन रोड, बान्द्रा (ईस्ट) हुए। प्रवक्ता ने बताया कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का में रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। उन्होंने जताई। प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू-दिशानिर्देशों का पालन करते हुए मुंबई-400051 आंचलिक कार्यालय : प्लॉट नंबर 6, ब्लॉक ए, सेक्टर-2, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 उपराज्यपाल को सुचित किया गया निर्माण चेनाब नदी पर किया जा रहा बताया कि बताया कि बारामूला-कश्मीर सरकार के अनुरोध पर रेलवे ने आयोजित करने की अपील की थी। परिशिष्ट IV कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) कि 27.949 करोड रुपए की लागत से है। इसके साथ ही इस लाइन पर भारत कुपवाड़ा के बीच 3,843 करोड़ रुपए अपने खर्चे पर माधोपुर में रेल सह रोड हालांकि भाजपा के राज्य से एकमात्र तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदल शक्ति 161 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन में पहले केबल आधारित रेलपुल का की अनुमानित लागत से 39 पुल बनाने पर सहमति जताई ताकि विधायक राजा सिंह त्योहार को का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रो)/गारंटर(रो) को नीथे दिए विवरण के अनुसार मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिनमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि क भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा कर्जदार(रो)/गारंटर(रों बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निर्माण रियासी जिले के अंजी नाले किलोमीटर लंबी रेललाइन बिछाने के पठानकोट-लखनपुर के बीच यातायात धूमधाम से नहीं मनाने संबंधी सरकार और जनसापारण को सूचना दी जाती है कि अपोहस्ताक्षरी ने प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियमाबली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की घारा 13 की उप–घारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीवे वर्णित संपत्ति का कच्जा प्राप्त कर लिया है। कर्जदार का घ्यान, प्रत्यामूत आसितयों को सिन्हा ने रेलवे अधिकारियों को पर किया जा रहा है। सिन्हा ने लिए सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका का दबाव कम हो सके। के फैसले से खुश नहीं थे। खुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की घारा 13 की उप-धारा (8) के प्राक्धान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कर्जदारों को विशेष रूप से तथ जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों प केंद्र ने तृतीय लिंगियों भोपाल में बाढ़ में फंसे से 85 लोग डीएचएफएल की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का मुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।

	3		
कर्जदार(रों) / गारंटर(रों)	प्रत्यामूत आस्ति	मांग सूचना	कब्जा की
का नाम / ऋण कोड	(अचल सम्पत्ति) का वर्णन	तिथि और राशि	तिथि
(ऋण कोड सं. 00001244). (दिल्ली) अमित कुमार (कर्जदार नाम) जूही तिवारी (सह–कर्जदार–नाम 1)	सम्परित के समस्त अंश एवं खंड : फुलैट नंबर 1208–ए, 12वां तल, टावर सीएस–6, प्लॉट नंबर जीएच–01/ए, सुपरटेक केपटाजन, सेक्टर–74, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर–201301	21−01−2020 रू. 35,61,557 / – (रू. पैंतीस लाख इक्सठ हजार पांच सौ सत्तावन मात्र)	17-08-20
(ऋण कोड सं. 00001227), (दिल्ली) सुखयिन्दर सिंह (कर्जदार नाम) हरप्रीत कौर (सह– कर्जदार—नाम 1)	सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंढ : प्लॉट नंबर सी-1/21-सी, तुवीय तल, फंट पोर्शन, छत के अधिकार सहित, खरारा नंबर 104/11, राजापुरी, ग्राम पालम, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110046	21—01—2020 रू. 15,70,875/— (रू. पंद्रह लाख सत्तर हजार आठ सौ पचहत्तर मात्र)	17-08-20
(ऋण कोड सं. 00000678),	सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंड : फूलैट नंबर एमएफ–02.	21-01-2020	18-08-20
(दिल्ली) अमनदीप सिंह (कर्जदार नाम)	प्रथम तल रियर एलएवएस एमआईजी, प्लॉट नंबर 7/11,	रू. 25,69,585/- (रू. पव्वीस लाख	
शिल्पी सिसोदिया (सह–कर्जदार–नाम 1)	राजेन्द्र नगर, सेक्टर–02. गाजियाबाद–201014	उनहत्तर हजार पांव सौ पिवासी मात्र)	
(ऋण कोड सं. 00043693).	सम्पति के समस्त अंश एवं खंड : अपर ग्राउण्ड कूलोर,	21-01-2020	17-08-20
(दिल्सी) नीरज कुमार (कर्जदार नाम)	फ्रंट आरएचएस पोर्शन, प्लॉट नंबर डी–406, इंदप्रस्थ	रू. 18,09,321/- (रू. जठारह लाख नौ	
सुमन (सह–कर्जदार–नाम 1)	कालोनी, गाजियाबाद–201010	हजार तीन सौ इक्कीस मात्र)	
(ऋण कोड सं. 00000462),	सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंड : फूलैट नंबर बी, तृतीय तल,	21-01-2020	19-08-20
(दिल्ली) अतुल बाजपेई (कर्जदार नाम)	रियर साइड मिडिल पोर्शन, खसरा नंबर 384, लाल डोरा की	रू. 22,81,257/- (रू. बाईस लाख	
अमित बाजपेई (सह–कर्जदार–नाम 1)	विस्तारित आबादी, बृजवासन, नई दिल्ली–110075	इक्यासी हजार दो सौ सत्तावन मात्र)	
(ऋण कोंड सं. 00002732),	सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंड : मकान नंबर एमआईजी	21-01-2020	19-08-20
(आगरा) राम किशन बधेल (कर्जदार नाम) वीरेन्द	ए 81 (पार्ट), शास्त्रीपुरम, शास्त्रीपुरम योजना लोहामंडी	रू. 11,36,707 / - (रू. ग्यारह लाख	
(सह–कर्जदार–नाम 1)	वार्ड, आगरा–282001	छत्तीस हजार सात सौ सात मात्र)	
(ऋण कोंड सं. 00002917).	सम्परित के समस्त अंश एवं खंड : यूनिट नंबर जी–1, मू	21—01—2020	19-08-20
(आगरा) लालमुनि बंसल (कर्जदार नाम)	तल, ब्लॉक नंबर बी–3, आग्रपाली कान्हा चौमुडान,	रू. 12,01,862/— (रू. बारह लाख एक	
मोहिनी (सह–कर्जदार–नाम 1)	वृन्दावन, मधुरा, उत्तर प्रदेश–281004	हजार आठ सौ बासठ मात्र)	
(ऋण कोऊ सं. 0000965), (दिल्ली) शालू जैन (कर्जदार नाम) विजय राणा (सह–कर्जदार–नाम 1)	सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंड : फूलैट नंबर जी-7, यूजीएफ, छंट एलएवएस प्लॉट नंबर 33, मिडिल खसरा नंबर 80 मिन, कृष्ण वाटिका, सुदामापुरी कालोनी, बुंडाहेझा, खाता नंबर 01178, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009	21-01-2020 रू. 15,82,238/- (रू. पंदह लाख बयासी हजार दो सौ अड़तीस मात्र)	180820
(ऋण कोड सं. 00001810).	सम्पति के समस्त अंश एवं खंड : द्वितीय तल फूलैट नंबर	21−01−2020	18-08-20
(दिल्ली) अंकित अग्रवाल (कर्जदार नाम) आशा	ए—1, प्लॉट नंबर 32, न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी, ग्राम पीलना	रू. 16,99,310 / − (रू. सोलह लाख	
अग्रवाल (सह–कर्जदार–नाम 1)	सोफीपुर परगना, मेरठ, उत्तर प्रदेश—250001	निन्यानवे हजार तीन सौ दस मात्र)	
(ऋण कोंड सं. 00000379), (दिल्ली) प्रहलाद सिंह बिष्ट (कर्जदार नाम) गीता बिष्ट (सह–कर्जदार–नाम 1)	सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंड : सम्पत्ति सं. 83, ब्लॉक–ए, शालीमार गार्डन मेन, गाजियाबाद–201001	21−01−2020 रू. 24,68,648 / − (रू. चौबीस लाख अडसठ हजार छह सौ अड़तालीस मात्र)	17-08-20
(ऋण कोड सं. 00002822).	सम्पत्ति के समरत अंश एवं खंड : मकान नंबर 4502,	26−07−2019	17-08-20
(गुडगांव) अमन भारद्वाज (कर्जदार नाम)	खसरा नंबर 6116/14, राजेन्द्र पार्क, मुझगांव,	रू. 40,33,883/− (रू. चालीस लाख	
थिकी शर्मा (सह-कर्जदार-नाम 1)	हरियाणा—122001	तेतीस हजार आठ सौ तिरासी मात्र)	
(ऋण कोठ सं. डीईएल37798). (दिल्ली–सफदरजंग) पुष्पा रानी (कर्जदार नाम) (सह–कर्जदार–नाम 1)	सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंड : एव/फूलैट नंबर मकान नंबर 10, वार्ड नंबर 19, आवास विकास रूद्रपुर, तहसील किच्छा, जिला उधमसिंह नगर नागा आर, निकट जीवनदीप हॉरियटल, उत्तराखंड, उत्तरांबल–263153	28-08-2019 रू. 2.42,70,621/- (रू. दो करोड़ बयालीस लाख सत्तर हजार छह सौ इक्कीस गात्र)	19-08-20
(ऋण कोङ सं. 00000567). (गिवाडी) गुरमीत सिंह (कर्जदार नाम) चरणजीत कौर (सह–कर्जदार–नाम 1)	सम्पति के समस्त अंश एवं खंड : सम्पति सं. 33-ए. टी एफ मय छत, बैक साइड, खसरा नंबर 123, गली नंबर 9. ब्लॉक-ओ एक्सटेंशन, ग्राम बिन्दापुर, वाणी विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	26-09-2019 रू. 22.68.472/- (रू. बाईरा लाख अडसढ हजार चार सौ बहत्तर मात्र) 29-10-2019	170820
(ऋण कोड सं. 00002985). (आगरा) मानेन्द्र कुमार (कर्जदार नाम) प्रियम्बदा सिंह (सह–कर्जदार–नाम 1)	सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंड : फुलैट नंबर ए-805, आठवां तल, अपर्णा प्रेम, शास्त्रीपुरम, आगरा, उत्तर प्रदेश-282007	रू. 21,59,124/— (रू. इक्कीस लाख उनसट हजार एक सौ चौबीस मात्र)	19-08-20
(ऋण कोड सं. 00000050),	सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंड : प्लॉट नंबर 9, किला	19−12−2019	17-08-20
(रोहतक) अनिल कुमार (कर्जदार नाम)	नंबर 33/4 5 मौजा सैनिक कालोनी, एमसी सीमा के	रू. 14,40,651 / − (रू. चौदह लाख	
रिंकू देवी (सह–कर्जदार–नाम 1)	मीतर, रोहतक, हरियाणा–124001	चालीस हजार छह सौ इक्यावन मात्र)	
(ऋण कोड सं. 00000976).	सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंड : फूलैट नंबर 104, प्रथम तल,	27–12–2019	18-08-20
(रोहिणी) शिव शक्ति ट्रेडर्स (कर्जदार नाम)	दत्तानी शेल्टर, ओशीवारा बस डिपो के सामने, ऑफ लिंक रोड	रू. 35,25,723/– (रू. पैंतीस लाख	
रूपेश अग्रवाल (सह–कर्जदार–नाम 1)	ओशीवारा, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई उपनगर, महाराष्ट्र-400067	पब्बीस हजार सात सौ तेईस मात्र)	

और मवेशी बचाए गए: चौहान

भोपाल के दमखेड़ा में बाढ़ प्रभावित स्थानों से पलायन करते लोग

#### <u>भाषा। भोपाल</u>

पिछले 24 घंटों के दौरान लगातार बारिश के कारण जिले के कई इलाकों दर्जन मवेशियों को बचाया है।

भोपाल और आसपास के क्षेत्र में (एसडीआरएफ) की बचाव टीम ने सजगता के साथ कार्य करते हुए बाढ़ के कारण फँसे करीब 85 नागरिकों

में बाढ़ आ गई और शहर की कई और दो दर्जन से जूयादा मवेशियों निचले इलाकों में जल जमाव की को जीवित बचाया है। मानवता की स्थिति बन गई है। आपदा मोचन दलों सेवा का यह अनुठा उदाहरण है। मैं जितनी भी प्रशंसा की जाए, कम है। ने भोपाल जिले में बाढ़ में फंसे सभी जवानों के सेवाभाव को प्रणाम इसबीच, प्रदेश के जनसंपर्क विभाग लगभग 85 लोगों को और लगभग दो करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ने कहा कि होम गार्ड ने भोपाल के मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री गाँव में झूँसी नदी में आई बाढ़ में एक दंपत्ति, उनके बच्चे और

ट्वीट किया, आज भोपाल में होम बच्चे सहित पशुओं का राष्ट्रीय गार्ड और राज्य आपदा मोचन दल आपदा मोचन दल (एनडीआरएफ) एवं एसडीआरएफ की टीम ने तत्परता दिखाते हुए बचाया। मैं पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आपने अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाई है। इसकी चौहान ने लिखा, भोपाल के छान परवलिया इलाके में बाढ में फंसे के लिए राष्ट्रीय परिषद गठित किया भाषा। नई दिल्ली किया जा सके। साथ ही केंद्र की तरफ से बताए गए इस तरह के अन्य केंद्र ने तृतीय लिंग समुदाय के लोगों कार्य करना होगा। परिषद में समुदाय से जुड़ी हुई नीतियां, कार्यक्रम, कानून के सदस्यों, पांच राज्यों और दस और परियोजना बनाने के लिए राष्ट्रीय

परिषद का गठन किया है, ताकि वे समानता हासिल कर सकें और इसमें पूरी तरह भागीदारी निभा सकें। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) कानून,

2019 के तहत परिषद का गठन किया है। यह जानकारी शुक्रवार की देर रात को जारी गजट अधिसूचना में दी गई। कानून के मुताबिक,

परिषद का कार्य किन्नरों के संबंध में नीतियां, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाएं बनाने में केंद्र को सलाह देना होगा। साथ ही वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों कर समानता हासिल करने और पूरी तरह भागीदारी करने के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी करेगा और नीतियों के प्रभाव का आकलन करेगा। परिषद के अन्य

केंद्रीय विभागों

प्रतिनिधित्व होगा। गजट अधिसूचना के मुताबिक इसके अध्यक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री होंगे जबकि उपाध्यक्ष मंत्रालय के एक कनिष्ठ मंत्री होंगे। इसने कहा कि अन्य सदस्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय से होंगे। राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक-एक प्रतिनिधि होंगे।

इन क्षेत्रों से किन्नर समुदाय के एक-एक प्रतिनिधियों की भी घोषणा की गई है। परिषद में पर्व क्षेत्र का कार्य मामले को देख रहे सरकार के प्रतिनिधित्व कर रही ट्रांसजेंडर समुदाय सभी विभागों, अन्य सरकारी एवं गैर की सदस्य मीरा परीदा ने कहा कि सरकारी संगठनों की गतिविधियों की उन्हें संभवतः समदाय के सदस्यों के समीक्षा करना और उनके बीच समक्ष उत्पन्न समस्याओं की पहचान करना और इस पर सरकार को सलाह

शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को फँसे पिता एवं उसके 3 साल के मवेशियों को बचाया।

समन्वय करना होगा ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान देना होगा।

(प्राधिकृत अधिकारी दीवान हाउसिंग फाइनैंस कारपोरेशन लिमिटेट

# बिहार भाजपा ने तीन चौथाई सीटें जीतने का संकल्प लिया

#### भाषा। पटना

बिहार भाजपा ने आसन्न विधानसभा चुनाव में तीन-चौथाई सीटें जीतने का अपना लक्ष्य शनिवार को निर्धारित किया जिसके लिए कार्यक्रम की घोषणा अगले महीने होने की संभावना है। बिहार भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की शनिवार से शुरू दो दिवसीय वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, हमने राजग के लिए तीन-चौथाई सीटें (बिहार विधानसभा की) जीतने का लक्ष्य रखा है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि राजग तीन-चौथाई सीटें जीते। बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबरनवंबर में संभावित है और राज्य में सत्ताधारी राजग में भाजपा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदय और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा शामिल हैं। जायसवाल ने बिहार भाजपा राज्य कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक के पहले दिन अपने अध्यक्षीय भाषण में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की बाढ और कोरोनावायरस के पीडतों के लिए विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए एक साथ काम करने के लिए प्रशंसा की। प्रवासी श्रमिक देश के विभिन्न हिस्सों से अपने गृह राज्य बिहार में आए थे। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान गरीबों और प्रवासी मजदूरों को भोजन कराने के अलावा उनके

बीच दवा, मास्क जैसी अन्य जरूरी चीजों का वितरण किए जाने तथा उनके लिए रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की। जायसवाल ने कहा कि कि पंचायत स्तर तक के भाजपा के 76 लाख कार्यकर्ता हमारी ताकत हैं और पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी सरकार की एक साल की उपलब्धियों से संबंधित संदेश 77 लाख घरों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि अनच्छेद 370 को खत्म किया जाना, एक अदालती फैसले के जरिए राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जाना, मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तालक को समाप्त किया जाना, पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान किया जाना दी सरकार के कुछ प्रमुख फैसलों में से थे। बिहार भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की दो दिवसीय डिजिटल बैठक में राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, मंगल पांडेय सहित राज्य कार्यकारिणी के सदस्यगण शामिल थे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी एल संतोष, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फड़नवीस अपने–अपने स्थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा रविवार को इस बैठक को संबोधित करेंगे।

# हाथियों ने एक और ग्रामीण को मार डाला

सोरेन के गृह जिले रामगढ के गोला ब्लाक में हाथियों को वापस जंगल में भगाने के लिए जंगली हाथियों का कहर लगातार जारी है और उन्होंने शनिवार को फिर एक ग्रामीण को कुचल कर मार डाला। रामगढ के मंडलीय वन अधिकारी विजय शंकर दूबे ने बताया कि सुबह गोला में संतन बेदिया नामक 26 वर्षीय एक ग्रामीण को हाथियों ने कुचल कर मार दिया जिसे मिलाकर इलाके में पिछले एक सप्ताह में हाथियों ने तीन लोगों को अब तक अपने काम से पीछे हट गए।

रामगढ़( भाषा )। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत कुचलकर मार दिया है। इसके अलावा यहां तैनात किए गए हाथी भगाओ दल के एक सदस्य समेत दो लोगों को अब तक हाथी ने कुचल कर गंभीर रूप से घायल भी किया है। हाथी भगाओ दल के रंजीत मांझी की हालत खराब है और वह रांची के मेदांता अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है। इस घटना के बाद उक्त हाथी भगाओ दल के लोग



तिथि : 23-08-2020

स्थान : दिल्ली

## विक्रय सूचना (केवल ई-नीलामी के माध्यम से विक्रय)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमृति हित (सरफासी) अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अन्तर्गत बैंक के पास बन्धक चल आस्तियों का विक्रय। जबकि, पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने हमारी शाखा के निम्नलिखित ऋण खाता/खातों में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (सरफासी) अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत निर्गत सूचना के अनुसरण में निम्नलिखित आस्तियों का कब्जा उनको बैंक की बकाया धनराशि की वसूली के लिए ''जैसी हैं जहां है आघार'' एवं ''जैसी है जो आघार'' पर बेचने के अधिकार के साथ ग्रहण कर लिया है। विक्रय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइट : http://ibapi.in पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से संपन्न किया जाएगा।

	प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय की अनुसूची									
लॉ ट सं.	शाखा एवं कर्जदार का नाम	चल आस्ति का विवरण	कब्जे की स्थिति (भौतिक अथवा सांकेतिक)	मांग सूचना तिथि (डीडी–एमएम–वाईवाई) बकाया राशि (रु.) (प्रतिभूत ऋण)	सुरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) राशि तथा ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	ईएमडी जमा हेतु खाता विवरण (आरटीजीएस/ एनईएफटी के माध्यम से जमा)	ई—नीलामी की तिथि⁄समय	बोली वृद्धि राशि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा संपर्क नंबर
1.	पीएसबी, लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद कर्जदार– श्री बिजू आनंदन पुत्र श्री आनंदन गारंटर : श्री राजी श्राथामपरमपिल राजन	वाहन कार मारुति स्विट वीडीआई बीएस IV (एम) डीजल, पंजीकरण सं. डीएलडरीजे9427, वेसिस नं. एमएउएफएचईबी1एस0078 1119, इंजन नं. डी13ए2490314, पंजीकरण प्राधिकरण लोनी बॉर्डर, नई दिल्ली जो कि श्री बिजू आनंदन पुत्र आनंदन के पक्ष में है		30—09—2017 रु. 4,12,741.80 (रु. चार लाख बारह हजार सात सौ इकतालीस एवं पैसे अस्सी मात्र) 30—08—2017 तक + उस पर मावी व्याज, व्यय तथा अन्य प्रमार इत्यादि	रु. 2,40,000.00 (रु. दो लाख चालीस हजार मात्र)	रु. 24,000.00 (रु. चौबीस हजार मात्र) 23–09–2020 को अप. 5 बजे तक	15111100000170 खाता नाम : जैडओ	25–09–2020 को पूर्वा. 11. 30 बजे से अप. 12.30 बजे तक	रु. 2000 ∕ – (रु. दो हजार मात्र)	श्री चंदर पाल मेहमी, शा. का. रेलवे रोड (गाजियाबाद) दूरमाष : 0120–2856504 मोबाइल : 8968419996 ई–मेल :g0191@psb.co.in

नियम तथा शर्ते : (1) ई-नीलामी का आयोजन उपाय के बिना ''जैसी हैं जहां है आघार'' तथा ''जैसी है जो है आघार'' पर किया जा रहा है। हालांकि वल वस्तुएं जैसे कि लकडी/मार्बल/अन्य कव्वा माल/फिक्सचर/मशीनें/घरेल वस्तुएं इत्यादि बिक्री का हिस्सा नहीं होंगी तथ वस्तुओं पर कोई अधिकार नहीं होगा। (2) प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार इन सम्पत्तियों / चल वस्तुओं पर कोई ऋणमार नहीं हैं। हालांकि, इच्छुक बोलीदातागणों को अपनी बोली जमा करने से पूर्व नीलामी पर रखी गयी सम्पत्तियों/आस्तियों पर ऋणमार, स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रमावित करनेवाले दावों/अधिकारों/बकायों के विषय में समस्त संबंधित प्राधिकारियों से अपनी स्वयं के स्तर पर स्वतंत्र पूछताछ छानबीन कर लेनी चाहिए। ई—नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी अभिवेदन को संस्थापित नहीं करता तथा संस्थापित करता हुआ नहीं माना जाएगा। आस्तियों का विक्रय बैंक को ज्ञात अथवा अज्ञात समस्त विद्यमान तथा मावी ऋणमारों के साथ किया जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिमूत ऋणदाता किसी भी प्रकार किसी तृतीय पक्ष के किसी भी प्रकृति के दावों/अधिकारों/बकायों हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। (3) यह उत्तरदायित्व बोलीदाताओं का ही होगा कि वे अपनी बोली जमा करने से पूर्व आस्तियों तथा इनके विनिर्देशन के बारे में समस्त माध्यमों द्वारा निरीक्षण कर लें अथवा स्वयं को संतुष्ट कर लें। नीलामी पर रखी गयी आस्तियों का निरीक्षण करने की अनुगति ऊपर वर्णितानुसार इच्छुक बोलीदाताओं को होगी। (4) इच्छुक बोलीदाताओं को ऊपर वर्णितानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/ऑनलाइन के माध्यमसे अपनी ईएमडी जमा करनी होगी। क्यया नोट करें कि वैंक/डिमांड ड्राट ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। (5) बोलीदाताओं द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण किए जाने के उपरान्त, इख्रुक बोलीदाता/क्रेता से अपेसा है कि वह बोली जमा की अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व वेब पोर्टल पर निम्नलिखित प्रलेखों की छायाप्रतियां अपलोड कर दे, जैसे 1) एनईएफटी/आरटीजीएस चालान की प्रति, 2) पैन कार्ड की प्रति, 3) पहचान का साक्ष्य/पता साक्ष्य (केवाईसी) जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट इत्यादि की स्वयं–सत्यापित प्रति 4) पता के साक्ष्य की प्रति, जिसके बिना बोली अरलीकार कर दे, जैसे 1 111 (निविदा सूचना में वर्णित) की स्कैन प्रति को विधिवत मर कर और इस्ताक्षर कर अपलोड करें। (6) जिन इच्छुक बोलीदातागण को लॉगइन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई–बोलीदान प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण सहायता चाहिए, वे वेब पोर्टल https://bapi.in पर सम्पर्क कर सकते हैं तथा पूछताछ से संबंधित किसी सहायता के लिए कृपया कमल किशोर, मुख्य प्रबंधक (मोबाइल) 9654106464, ई–मेल : zm.noida@psb.co.in से कार्यदिवसों में उनके कार्यालय में कार्यसमय में सम्पर्क करें। (7) केवल वैध प्रयोक्ता आईडी पासवर्ड घारक और एनईएफटी आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी की रकम मुगतान अभिपुष्टकर्ता क्रेतागण ही ई–नीलामी प्रक्रिया में प्रतिमागिता करने के लिए ग्राहय होंगे। (8) इच्छुक बोलीदाता को अपने बोली प्रलेख (ईएमडी (उपरोक्त विनिर्दिष्टानुसार सुरक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत से कम नहीं) तथा अपेक्षित प्रलेख (बिंदु सं. 4 में वर्णित) 23-09-2020 को सायं 5.00 बजे/इससे पूर्व ऑनलाइन विधि (जो कि वेब पोर्टल :https://ibapi.in पर ई-नीलामी आयोजन के प्रकाशन की तिथि से खुली है, जिसके अंतर्गत पंजीकरण प्रक्रिया (एकल अवसर) के माध्यम से प्रविष्ट करना होगा और अपना प्रयोगता जाईडी तथा पासवर्ड बनाना होगा, के माध्यम से) जमा करने होंगे, और इस विधि से ई-नीलामी करनेवालों को ई-नीलामी प्रक्रिया में भागीदार हेतु योग्य माना जाएगा, जो कि प्राधिकृत अधिकारी के नियत सत्यापन (प्रलेखों का) तथा/अथवा अनुमोदन के अधीन होगा। (9) ऑनलाइन परस्पर बोलीदान की समयावधि में बोलीदाता 'बोली वृद्धि राशि' (ऊपर वर्णित) के अनुसार अथवा इसके गुणकों में अपनी बोली राशि में वृद्धि कर सकता है तथा ई-नीलामी के समयावधि में बोलीदाता 'बोली वृद्धि राशि' (ऊपर वर्णित) के अनुसार अथवा इसके गुणकों में अपनी बोली राशि में वृद्धि कर सकता है तथा ई-नीलामी के समयावधि में बोलीदाता 'बोली वृद्धि राशि' (ऊपर वर्णित) के अनुसार अथवा इसके गुणकों में अपनी बोली राशि में वृद्धि कर सकता है तथा ई-नीलामी के समयावधि में बोलीदाता 'बोली वृद्धि राशि' (आरहित मूल्य से कम नहीं) जमा करता में बोली प्रसिद्ध का असीमित विस्तार। बोलीदाता जो ई-नीलामी प्रक्रिया के समापन पर सर्वोच्च बोली राशि (आरहित मूल्य से कम नहीं) जमा करता है. उसे प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। (10) सफल बोलीदाता की घरोहर राशि जमा (ईएमडी) विकय प्रतिफल के अंश रूप में सुरक्षित रख ली जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। घरोहर राशि जमा पर कोई व्याज देय नहीं होगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के उपरान्त, पूर्व में भुगतान की गयी ईएमडी का समायोजन करते हुए. विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि तत्काल जमा करनी होगी तथा विक्रय मूल्य की शेष 75 प्रतिशत राशि का मुगतान विक्रय के 15 दिन में अथवा इससे पूर्व अथवा प्राधिकृत अधिकारी के एकमात्र विवेक तथा लिखित रूप में सहमत अवधि के अंदर करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा मुगतान में चूक किए जाने की स्थिति में, बोलीदाता द्वारा पहले ही जमा की गयी धनराशि जब्द कर ली जाएगी तथा सम्पत्तियों को पूनर्नीलामी के लिए रख दिया जाएगा तथा चुककर्ता बोलीदाता का सम्पत्तियों /धनराशि के संदर्भ में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा। (11) प्रस्तावित अर्हताप्राप्त बोलीदातागण ई—नीलामी की तिथि से पूर्व वेब पोर्टल https://ibapi.in पर ऑनलाइ-प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। न तो प्राधिकृत अधिकारी/बैंक और न ही वेब पोर्टल https://bapi.in किसी इंटरनेट नेटवर्क समस्या हेतु उत्तरदायी होंगे तथा इच्छुक बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ई--नीलामी आयोजन में प्रतिमागिता करने के लिए तकनीक साधन-संसाधनों के साथ तैयार हैं। (12) क्रेता को लागू अनुसार स्टांप शुल्क/अतिरिक्त स्टांप शुल्क/हत्यादि तथा प्रसार प्राति को मुग्तेय के साथ तैयार हैं। (12) क्रेता को लागू अनुसार स्टांप शुल्क/अतिरिक्त स्टांप शुल्क इत्यादि का मुगतान वह-करना होगा। (13) प्राधिकृत अधिकारी, जो सर्वोच्च प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं, उनके पास पूर्णाधिकार हैं कि वे किसी प्रस्ताव अथवा समस्त प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं अथवा कोई कारण बताए बिना ई-नीलामी को स्थगित/निरस्त कर सकते हैं/ रोक सकते हैं। (14) बोलीदाताओं को सलाह है कि वे अपनी बोलियां जमा करने तथा ई-नीलामी में मांग लेने से पूर्व वेब पोर्टल https://ibapi.in पर उपलब्ध ई-नीलामी प्रक्रिया के विस्तृत नियमों तथा शतों को देख लें। (15) विशेष अनुदेश : अत्तिम समय पर बोलीदान करने की प्रवृत्ति को त्यागें। न तो बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी तकनीकी कमी और विद्युत/इंटरनेट विफलता के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के क्रम में बोलीदाताओं से अनुरोघ है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि तकनीकी साघन-संसाघनों के साथ पूरी तरह तैयार हैं तथा उनके पास समस्त विकल्प यथा विद्युतापूर्ति बैक-अप इत्यादि है, ताकि उन्हें किसी आकस्मिक बाधा का सामना न करना पड़े और वे सफलतापूर्वक ऑनलाइन परस्पर बोलीदान में माग ले सकें। (16) विक्रय प्रमाणपत्र, संपूर्ण विक्रय मूल्य राशि के मुगतान के उपरान्त केवल क्रेता (बोली प्रारूप के अनुसार) के पक्ष में निर्गत किया जाएगा। (17) आय कर अधिनियम 1961 की घारा 194–आईए के अनुसार, जहां रु. 50,00,000/- (रुपए पचास लाख) और इससे अधिक की विक्रयराशि प्राप्ति हो वहां विक्रय राजस्व पर 1 प्रतिशत की दर से टीडीएस लागू होगा। सफल बोलीदाता/केता विकय मूल्य से 1 प्रतिशत टीडीएस की कटौती करेगा तथा इसे प्रारूप सं. 16-बी, जो कि बैंक के नाम तथा पैन नं. एएएसीपी1206जी से समाविष्ट है, में प्रविष्ट कर आय कर विमाग में जमा करेगा। (18) विक्रय के विस्तृत नियमों तथा शर्तों लिए कृपया निग्नलिखित लिंक 1) https://ibapi.in, 2) www.bapi.in, 3) www.psbindia.com का संदर्भ ग्रहण करें। विक्रय के विस्तृत नियमों तथा शर्तों के लिए कृपया पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रतिभूत ऋणदाता की बेबसाइट 1) https://ibapi.in, 2) www.tender.gov.in, 3) www.psbindia.com का संदर्भ ग्रहण करें।

दिनांक : 23-08-2020

स्थान : नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी (पंजाब एण्ड सिंध बैंक